



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1932 (श0)
(सं0 पटना 425) पटना, सोमवार, 28 जून 2010

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

18 जून 2010

सं0 निग/सारा-4-(पथ) आरोप-72/09-9197 (एस)—श्री अनिल कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज को पथ प्रमंडल, किशनगंज के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए अधिसूचना संख्या 9971 सह-पठित ज्ञापांक 9972, दिनांक 09 सितम्बर 2009 द्वारा निलंबित किया गया तत्पश्चात आरोप प्रपत्र “क” गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 12575 (एस) अनु0 दिनांक 09 नवम्बर 2009 द्वारा श्री शर्मा से बचाव बयान की मांग की गयी। श्री शर्मा द्वारा समर्पित बचाव बयान पत्रांक—शून्य दिनांक 20 नवम्बर 2009 की विभागीय समीक्षोपरांत संतोषजनक नहीं मानते हुए पुनः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के आलोक में पत्रांक-96 (एस) दिनांक 04 जनवरी 2010 द्वारा बचाव बयान की मांग की गयी। श्री शर्मा द्वारा समर्पित बचाव बयान को अस्वीकार योग्य पाते हुए अधिसूचना संख्या 4323 (एस) दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया:—

(i) दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक,

(ii) निन्दन (आरोप वर्ष 2008-09)।

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री शर्मा द्वारा आवेदन पत्रांक—शून्य दिनांक 13 अप्रैल 2010 समर्पित किया गया। श्री शर्मा द्वारा समर्पित आवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि इन्होंने अपने पूर्व बचाव बयान की ही पुनरुक्ति की है। उक्त आवेदन अर्जी में ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया गया है, जिससे सुविचारित शास्ति पर पुनर्विचार किया जा सके।

अतः सम्यक विचरोपरांत सरकार द्वारा श्री शर्मा के आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0)—अस्पष्ट,

संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 425-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>